



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012024-251316  
CG-DL-E-12012024-251316

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 12, 2024/पौष 22, 1945

No. 152]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 12, 2024/PAUSHA 22, 1945

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2024

का.आ. 159(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 25 अप्रैल, 2023 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1889 (अ), तारीख 17 अप्रैल, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के निष्पादन के प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, "दि टाइम्स ऑफ इण्डिया" और "दैनिक जागरण" में तारीख 16 जून, 2023 को प्रकाशित किया गया था;

और, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त अधिसूचना के संबंध में जनता से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपधारा (2) के अनुसरण में,—

- (i) सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी; और
- (ii) यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला: प्रयागराज

तहसील का नाम	ग्राम का नाम	गाटा नम्बर	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	रकबा (क्षे. हे. में)	भू-स्वामी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
करछना	चक दुर्गादत्त	73/3	निजी	कृषि	0.1355	इन्द्रपाल पुत्र पन्नालाल व लालचन्द्र, कृष्ण चन्द्र, सुभाष चन्द्र पुत्रगण मोती लाल व श्रीमती ननकी देवी पत्नी मोतीलाल व विकाश कुमार पुत्र मूलचन्द्र व आशुतोष ना0बा0 उम्र 16 वर्ष पुत्र मूलचन्द्र सं0 गुलाबकली माता व श्रीमती गुलाबकली पत्नी मूलचन्द्र व फूलचन्द्र पुत्र हीरालाल समस्त नि. ग्राम चक योगराज
						राम अवध, राम हर्ष, राम खेलावन पुत्रगण जगन्नाथ नि. ग्राम चक योगराज

[फा. सं. 2023/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2451]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु.)

## MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2024

**S.O. 159(E).**—WHEREAS by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O.1889 (E), dated the 17<sup>th</sup> April, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 25<sup>th</sup> April, 2023, (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the purpose of execution of Special Railway Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Prayagraj in the State of Uttar Pradesh;

AND WHEREAS, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “The Times of India” and “Dainik Jagran”, dated the 16<sup>th</sup> June, 2023 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

AND WHEREAS, no objections were received from the public in respect of the said notification within the specified period;

AND WHEREAS, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), and in pursuance of sub-section (2), of section 20E of the said Act, the Central Government,-

- (i) upon receipt of the said report of the competent authority, hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose; and
- (ii) hereby declares that on publication of this notification, the lands specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely upon it free from all encumbrances.

#### SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for Special Railway Project of Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Prayagraj in the State of Uttar Pradesh.

DISTRICT: Prayagraj

Name of Taluk	Name of Village	Survey number	Type of Land	Nature of land	Area (in Hectare)	Name of Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KARCHANA	Chak Durgadatta	73/3	Private	Agriculture	0.1355	Indrapal S/o Pannalal and Lalchandra, Krishna Chandra, Subhash Chandra S/o Motilal and Smt. Nanki Devi W/o Motilal and Vikash Kumar S/o Mulchandra and Aashutosh Kumar minor age 16 Years S/o Late Mulchandra and Smt. Gulabkali W/o Late Mulchandra and Fulchandra S/o Heeralal resident of Chak yograj.
						Ram Awadh, Ram Harsh, Ram Khelawan S/o Jagannath resident of Chak yograj.

[F. No. 2023/LML-II/12/2/EC/2451]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&A)